

## PRODUCT NAME

### Diverging Pull Down (7.55)

## PRODUCT CODE

### MB 7.55



MB 7.55 "डाइवर्जिंग पुल डाउन" का उपयोग मुख्य रूप से पेक्टोरल मांसपेशियों, पीठ की मांसपेशियों, बाइसेप्स और कंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। बारी-बारी से "चेस्ट डेडलफिट" और "शोल्डर डेडलफिट" अभ्यास की संभावना के लिए धन्यवाद, यह मशीन एक मजबूत और व्यापक पीठ प्राप्त कर सकती है।

प्रत्येक तरफ अधिकतम भार ... 77.5 किलोग्राम में नमिनल लिफ्टिंग वजन होते हैं ... 14 x 10 किलो; 6 x 2.5 किलो

## क्षेत्रों

### सामान्य जानकारी

**ब्रांड** MB Barbell  
**प्रयोग** व्यायाम, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाना

### तकनीकी निर्देश

**आयाम** 2.5m x 2.5m x 0m  
**ड्राप ऊंचाई (मीटर में एचआईसी)** 0.00m  
**रंग योजना** आरएएल पैलेट  
**स्टेशनों की संख्या** 1  
**सरफेसिंग**

ए) छड़िकाव जस्ता आधार + कोमैक्सिटि 120μ बी) हॉट-डिपि जस्ता + कोमैक्सिटि 120μ

### प्रयुक्त सामग्री

	व्यास	चौड़ाई
समानांतर पट्टियाँ	51mm	4,5mm
बज्र बार	33,7mm	3,5 - 4,5mm
स्तंभ (वर्ग योजना)	100mm	4,0mm

### अनुशंसित प्रभाव क्षेत्र

**इष्टतम आकार** 2m x 3m  
**नींव** कंक्रीट स्लैब + ईपीडीएम या कंक्रीट फुटिंग + थोक सामग्री

Enuma Elis sro ले सधैं EN 16:630 सुरक्षा मानकानुसार स्थापनाको सफिरसि गर्दछ

### वतिरण और स्थापना

**डिलीवरी का समय** 5 - 8 सप्ताह  
**मानदंडों** EN16:630